



## प्रेस नोट थाना डिडौली

दिनांक 10.06.2021

### आमजन के सहयोग से बुलेट मोटर साइकिल चोरी कर ले जा रहे 02 अभियुक्त रंगे हाथ गिरफ्तार, लूट में थे वांछित, लूट का माल बरामद।

अवगत कराना है कि कल दिनांक 09.06.2021 की रात्रि थाना डिडौली पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से एक बुलेट मोटर साइकिल को चोरी कर इकौंदा रोड से जा रहे 02 अभियुक्त 1. सलमान पुत्र जुनैद उर्फ असद उर्फ फाती निवासी ग्राम शकरपुर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा व 2. पम्मी पुत्र अब्दुल निवासी ग्राम शकरपुर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा हाल निवासी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पीछे को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना डिडौली पर मु0अ0सं0 222/2021 धारा 323/379/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण की निशादेही पर मेन रोड से एक चार दिवारी वाले बाग के सामने से गई सडके के किनारे एक खेत में झाड़ झंकाड़ में छिपाकर रखे गये ग्राम हिरना खेडी में हुई लूट के माल से बचे हुये चाँदी के सिक्के व चाँदी की पाजेब बरामद किये गये।

#### पुछताछ विवरण:-

पुछताछ पर अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो जोया में इकौंदा रोड से बुलेट मोटर साइकिल चोरी कर ले जा रहे थे कि जनता व पुलिस ने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया। मोटर साइकिल को चोरी करके इस मोटर साइकिल से हम अन्य चोरी व लूट की घटनाओं को अंजाम देते। गिरफ्तार अभियुक्त सलमान थाना बेला जनपद औरैया में लूट के मुकदमे में जेल गया था और करीब 03 माह पहले जेल से छूटकर आया था और पम्मी व अन्य साथियों के साथ मिलकर करीब 02 माह पहले हिरना खेडी गाँव के जंगल में बने एक मकान में तमंचो के बल पर परिवार के लोगो को डरा धमका कर जेवर व पैसे लूटे थे जिन्हे हमने आपस में बराबर बाँट लिया था। मेरे व पम्मी के हिस्से में आये पैसे हमने खर्च कर दिये और जेवर को चलते फिरते राहगीरो को बेच दिया था। कुछ माह पूर्व थाना रजबपुर पुलिस द्वारा शकरपुर के ढेरो पर जगह छोड़ने के लिये दबाव बनाया था तो हम शकरपुर से जगह छोड़कर कुछ लोग बिजनौर की तरफ व कुछ मण्डी धनौरा की तरफ खेतों में जाकर रहने लगे थे। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर व लुटेरे हैं जोकि अपनी पहचान छुपाने के लिये जहाँ जाते हैं वहाँ का आधार कार्ड भी बनवा लेते हैं। अभियुक्तगण द्वारा यह भी बताया गया कि हम जहाँ भी हम पकड़े जाते हैं वहाँ अलग आधार कार्ड बता देते हैं जिससे छूटकर आने के बाद हम



### गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. सलमान पुत्र जुनैद उर्फ असद उर्फ फाती निवासी ग्राम शकरपुर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।
2. पम्मी पुत्र अब्दुल निवासी ग्राम शकरपुर थाना रजबपुर, अमरोहा हाल निवासी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पीछे ।

### बरामदगी:-

1. अभियुक्त सलमान से 02 आधार कार्ड की छाया प्रति जिसमे दोनो जगह अलग-अलग पता लिखा है ।
2. लूट का माल चाँदी के सिक्के व चाँदी की पाजेब (अभियुक्तो की निशादेही पर ) ।

### अपराधिक इतिहास अभियुक्त सलमान:-

1. मु0अ0सं0 494/2020 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना विधुना जनपद औरैया ।
2. मु0अ0सं0 495/2020 धारा 307 भादवि थाना विधुना जनपद औरैया ।
3. मु0अ0सं0 352/2018 धारा 394/411 भादवि थाना बेला जनपद औरैया ।
4. मु0अ0सं0 222/2021 धारा 323/379/411 भादवि थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
5. मु0अ0सं0 122/2021 धारा 392/342 भादवि थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।

### अपराधिक इतिहास अभियुक्त पम्मी:-

1. मु0अ0सं0 222/2021 धारा 323/379/411 भादवि थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 122/2021 धारा 392/342 भादवि थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।